



# पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

## सराहनीय कार्य

दिनांक 22.04.2021

1-थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस व क्राइम ब्रांच गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा REMDESIVIR INJECTION की कालाबाजारी करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 105 वायल्स REMDESIVIR INJECTION, सेंट्रो कार व 1,54,000 रुपये नकद बरामद।

दिनांक 20/04/2021 को थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस व क्राइम ब्रांच गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा REMDESIVIR INJECTION की कालाबाजारी करते हुए 01 अभियुक्त रचित घई पुत्र अश्वनी घई निवासी म0न0 2503 टॉवर-3 सेक्टर-168 नोएडा मूल पता 147 राजधानी घई पीतमपुरा सरस्वती विहार दिल्ली को थाना क्षेत्र के डीपीएस पब्लिक स्कूल सेक्टर 29 के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 105 वायल्स REMDESIVIR INJECTION, सेंट्रो कार व 154000 रुपये नकद बरामद किये गये है।

अभियुक्त नोएडा में रहकर REMDESIVIR INJECTION की कालाबाजारी कर रहा था एवं जरूरतमंद लोगों को ₹15,000 से ₹40,000 के बीच में बेच रहा था। दवा अभियुक्त द्वारा दिल्ली तथा मुख्यतः चंडीगढ़ से लायी जा रही थी।

### **अभियुक्त का विवरण:**

रचित घई पुत्र अश्वनी घई निवासी म0न0 2503 टॉवर-3 सेक्टर-168 नोएडा मूल पता 147 राजधानी घई पीतमपुरा सरस्वती विहार दिल्ली।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:**

मु0अ0सं0 351/2021 धारा 420 भादवि0 व 10/18ए/27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि0 1940 व 96 औषधि और प्रसाधन अधि0 1945 व 3 महामारी अधि0 थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण:

1. REMDESIVIR INJECTION भारतीय 100 वायल्स
2. REMDESIVIR INJECTION बांग्लादेशी 5 वायल्स
3. सेंट्रो कार (DL1CM 1083)
4. कुल 154000 रुपये



#जनपद गौतमबुद्धनगर मे लगातार बढ रहे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा बडी पहल करते हुये एक सराहनीय निर्णय लिया गया है। यदि किसी कोरोना से पीडित व्यक्ति को प्लाज्मा की आवश्यकता है तो पुलिस विभाग के ठीक हो चुके संक्रमित पुलिस कर्मी द्वारा कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को प्लाज्मा डोनेट करने के लिये तैयार है। इसी क्रम में अभी तक नोएडा पुलिस के 1- उ0नि0 अनूप कुमार थाना सेक्टर 39 नोएडा, 2-मुख्य आरक्षी प्रशान्त कुमार वर्तमान नियुक्ति आईजीआरएस सेल,3-आरक्षी राजीव ट्रैफिक पुलिस नोएडा द्वारा प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय कार्य में अपना योगदान किया है।

गौतमबुद्धनगर पुलिस परिवार इनके इस मानवीय कार्य पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

# दिनांक 21-04-2021 को पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस और पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर महोदय के आदेश के क्रम में अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय महोदय के निर्देशन में कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने के लिये जनपद के 108 स्थानों पर कराया गया सैनिटाइज

जनपद गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न भागों में फायर सर्विस की गाड़ियां बुधवार के दिन सैनिटाइजेशन करने के लिए सड़कों पर उतरी। इन गाड़ियों द्वारा सैनिटाइजेशन करते हुए कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है

गौतम बुद्ध नगर की अग्निशमन शाखा ने सैनिटाइजेशन हेतु विशेष अभियान चलाते हुए गाड़ियों द्वारा जनपद में 108 स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया



#जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने , दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू/रविवार के दिन लागू लॉकडाउन के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा।

इसी के क्रम में दिनांक 21.04.2021 को 1137 व्यक्तियों पर चालान की कार्यवाही करते हुए 1,84,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया साथ ही 2 व्यक्तियों को मास्क सम्बन्धी नियम की पुनरावृत्ति करने पर संशोधित दर 10,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

869 वाहनों का चालान करते हुए कुल 32600 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 06 वाहनों को सीज भी किया गया।